



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 721]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2019/माघ 24, 1940

No. 721]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2019/MAGHA 24, 1940

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2019

**का.आ. 843(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4085(अ) दिनांक 20.08.2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में NH 754K के कि.मी. 349.743 से कि.मी. 381.743 (बालेसर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"11.09.2018 "** को **"राजस्थान पत्रिका"** और **"दैनिक भास्कर"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और 115 आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में NH 754K के कि.मी. 349.743 से कि.मी.381.743 (बालेसर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: जोधपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बालेसर				
	गांव का नाम: चिडवाई				
1	416	निजी	बारानी-प्रथम	1.7655	गोरधनराम पि. भंवरलाल 1/3 नेमीचन्द पि. भंवरलाल 1/3 तिलोकचन्द पि. भंवरलाल 1/3 जाति पालीवाल सा.देह खातेदार रहन - जगदीशलाल का हिस्सा एस बी आई शाखा जेलू गगाड़ी रहन -एस.बी.बी.जे. शाखा तिवरी नामा.सं. 1016, 1022 (४१६)
2	419	निजी	बारानी-चतुर्थ	1.4893	भंवरलाल देवाराम दुर्गाराम सोहनलाल मदनलाल पि. प्रेमसुख राधादेवी पुत्री प्रेमसुख अणचीदेवी पत्नि प्रेमसुख गोपीलाल पुत्र गोविन्दराम 1/2 मदनलाल पुत्र राणाराम 1/2 जाति पालीवाल सा.देह खातेदार नामा.सं. 1265, 1266, 1272 (४१९)
3	421	निजी	बारानी-चतुर्थ	3.2129	जितेन्द्र पुत्र किरपाराम भंवरी तीजो धापु पुत्रियां किरपाराम पुरोदेवी पत्नि किरपाराम 85/1504 हरिराम पुत्र डूंगरराम 85/1504 मांगीलाल कन्हैयालाल पारस पि. हीराराम लूणीदेवी पत्नि हीराराम 85/1504 खींवरज कुन्दनमल पि. चुन्नीलाल पिन्कु संतु मुन्नी पुत्रियां चुन्नीलाल राधादेवी पत्नि चुन्नीलाल 85/1504 जाति पालीवाल सा.देह खातेदार भंवरलाल देवाराम दुर्गाराम सोहनलाल मदनलाल पि. प्रेमसुख राधादेवी पुत्री प्रेमसुख अणचीदेवी पत्नि प्रेमसुख 291/752 गोपीलाल पुत्र गोविन्दराम 291/752 जाति पालीवाल

					सा.देह खातेदार रहन-एस.बी.आई. शाखा जेलू गंगाड़ी में गोपीलाल का हि. (४२१ )
4	422	निजी	बारानी-चतुर्थ	2.1973	भवानीसिंह भैरूसिंह पि. आईदानसिंह लालकंवर पत्नि आईदानसिंह किशोरसिंह पुत्र भूरसिंह जोगसिंह गोदपुत्र खिवसिंह सायरकंवर पत्नि खिवसिंह रेवंतसिंह पि. भीवसिंह मोहनकंवर पत्नि रूपसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार रहन- एस.बी.आई. जेलूगंगाड़ी में जोगसिंह व सायरकंवर का हि. रहन- किशोरसिंह का हि. एस.बी.आई. शाखा जेलू गंगाड़ी रहन- रेंवतसिंह का हि. एस.बी.आई. शाखा जेलू गंगाड़ी नामा.सं. 1234, 1279, 979, 981, 1000 (४२२ )
5	Mai Batta No. Sahit 410	निजी	बारानी-I,II,III	0.0041	गोधुलाल वल्द तुलछीराम पालू पत्नि स्व.किशोरीलाल जाति पालीवाल सा.देह खातेदार रहन-गोधुलाल का हिस्सा एस.बी.बी.जे. शाखा तिंवरी नामा.सं. 1186, 1214, 1409 (410) नारायणराम नेनाराम पि. बट्टीप्रसाद 1/3 भंवरलाल पि. प्रभूराम बट्टीप्रसाद पुत्र लेखराम 2/3 जाति पालीवाल सा.देह खातेदार रहन - नारायणराम व नेनाराम का हि. एस.बी.बी.जे. शाखा तिंवरी नामा.सं. 1027, 1041 (410/1) (४१०, ४१०/१ )
6	Mai Batta No. Sahit 420	निजी	बारानी-चतुर्थ	1.5906	चन्द्रूदेवी पत्नि नारायणराम 1/2 गोमतीदेवी पत्नि नेनाराम 1/2 जाति पालीवाल सा.देह खातेदार रहन- एस.बी.आई शाखा जेलू गंगाड़ी नामा.सं. 1244, 1253 (४२०)
			कुल	10.2597	

[फा. सं. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3D19]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2019

**S.O. 843(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO 4085(E) dated 20.08.2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 754K on the stretch of land from Km 349.743 to Km 381.743 (Balesar) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” both dated 11.09.2018; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas 115 objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 754K in the stretch of land from Km 349.743 to Km 381.743 (Balesar) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN.

<b>State: RAJASTHAN District: JODHPUR</b>					
<b>Sr. No.</b>	<b>Survey Number</b>	<b>Type of Land</b>	<b>Nature of Land</b>	<b>Area in Hectare</b>	<b>Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>Taluk: Balesar</b>				
	<b>Village: Chidwai</b>				
1	416	Private	Barani-I	1.7655	Gordhanram S/o Bhanwarlal 1/3 Nemichand S/o Bhanwarlal 1/3 Tilokchand S/o Bhanwarlal 1/3 Caste Paliwal Sa. Deh Khatedar Rahan - Jagdishlal Ka Hi. SBI Branch Jelu Gagadi Rahan- SBBJ Branch Tiwari Nama.S. 1016, 1022 416
2	419	Private	Barani-IV	1.4893	Bhanwarlal Devaram Durgaram Sohanlal Madanlal S/o Premsukh Radhadevi D/o Premsukh Anchidevi W/o Premsukh Gopilal S/o Govindram 1/2 Madanlal S/o Ranaram 1/2 Caste Paliwal Sa. Deh Khatedar Nama.S. 1265, 1266, 1272 419
3	421	Private	Barani-IV	3.2129	Jitendra S/o Kirparam Bhanwari Tejo Dhapu D/o Kirparam Purodevi W/o

					Kirparam 85/1504 Hariram S/o Dungarram 85/1504 Mangilal Kanhayalal Paras S/o Hariram Lunidevi W/o Hiraram 85/1504 Khivraj Kundanmal S/o Chunnilal Pinku Santu Munni D/o Chunnilal Radhadevi W/o Chunnilal 85/1504 Caste Paliwal Sa. Deh Khatedar Bhanwarlal Devaram Durgaram Sohanlal Madanlal S/o Premasukh Radhadevi D/o Premasukh Anchidevi W/o Premasukh 291/752 Gopilal S/o Govindram 291/752 Caste Paliwal Sa. Deh Khatedar Rahan-SBI Branch Jailu Gangadi Gopilal Ka Hi. 421
4	422	Private	Barani-IV	2.1973	Bhawanisingh Bhairusingh S/o Aaidansingh Lalkanwar W/o Aaidansingh Kishorsingh S/o Bhoorsingh Jogsingh Godputra Khinvsingh Sayarkanwar W/o Khinvsingh Revatsingh S/o Bhivsingh Mohankanwar W/o Roopsingh Caste Rajpoot Sa. Deh Khatedar Rahan- SBI Branch Jelu Gagadi Jogsingh and Sayarkanwar Ka Hi. Rahan- Kishorsingh Ka Hi. Branch SBI Jelu Gagadi Rahan- Rewatsingh ka Hi. SBI Branch Jelu Gagadi Nama.S. 1279, 1234, 979, 981, 1000 422
5	Mai Batta No. Sahit 410	Private	Barani -I,II,III	0.0041	Godhulal S/o Tulchiram Palu W/o Swa.Kishorilal Caste Paliwal Sa. Deh Khatedar Rahan - Godhulal Ka Hissa SBBJ Branch Tiwari Nama.S. 1186, 1214, 1409 (410) Narayanram Nainaram S/o Badriprasad 1/3 Bhanwarlal S/o Prabhuram Badriprasad S/o Laikhram 2/3 Caste Paliwal Sa. Deh Khatedar Rahan-Narayanram and Nainaram Ka Hi. SBBJ Branch Tiwari Nama S. 1027, 1041 (410/1) 410, 410/1
6	Mai Batta No. Sahit 420	Private	Barani-IV	1.5906	Chandudevi W/o Narayanram 1/2 Gomatidevi W/o Nainaram 1/2 Caste Paliwal Sa. Deh Khatedar Rahan- SBI Branch Jelu Gagadi Nama.S. 1244, 1253 420
			<b>TOTAL</b>	<b>10.2597</b>	

[F. No. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3D19]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.